



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 7 मार्च, 2015 / 16 फाल्गुन, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

“सहज पंजीकरण—सहज संशोधन”

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार  
38—एस.डी.ए. कॉम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला—171009

अधिसूचना

शिमला, 5 मार्च, 2015

संख्या 3-26/2014-ई0एल0एन0-503.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2015/रा0 दल अनु0-II, दिनांक 23 जनवरी, 2015 तदनुसार 3 माघ, 1936 (शक) जो कि निर्वाचन प्रतीक

(आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2015/रा0 दल अनु0-II, दिनांक 13 जनवरी, 2015, में शुद्धि के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,  
नरेन्द्र चौहान,  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
हिमाचल प्रदेश।

### भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड,  
नई दिल्ली-110001.

दिनांक : 23 जनवरी, 2015  
3 माघ, 1936 (शक)

### शुद्धिपत्र

संख्या: 56/2015/रा0दल0अनु0-II.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (iii), तारीख 13-01-2015 में प्रकाशित, हिन्दी अधिसूचना संख्या 56/2015 रा.दल. अनु-II दिनांक 13-01-2015 में—

1. हिन्दी अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 4 में अंकित सारणी के स्तम्भ 4 के अन्तर्गत क्रम सं० 4 में “बिहार राज्य” की “राष्ट्रीय लोक समता पार्टी” के सम्मुख विद्यमान प्रविष्टि को “छत का पंखा” पढ़ा जाए।
2. हिन्दी अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 69 में अंकित सारणी के स्तम्भ 2 व 3 के अन्तर्गत क्रम सं० 1287 पर विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः “राष्ट्रीय जागृति पार्टी” और “ऋषभ इंस्टीच्यूट, चिरैयाटाइ पुल, चौधरी पैट्रोल पम्प, कंकड़बाग, पटना, बिहार-800020” पढ़ा जाए।

आदेश से,  
वरिन्दर कुमार,  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,  
Ashoka Road,  
New Delhi – 110001.

Dated : 23rd January, 2015.  
3, Magha, 1936 (Saka).

CORRIGENDUM

**No.56/2015/PPS-II.**—In the **Hindi Version of the Commission's Notification** No. 56/2015/PPS-II, dated 13.01.2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (iii), dated 13.01.2015:—

1. At page 4 of the **Hindi version of the Notification** in column 4 against Sl. No. 4 in respect of “Rashtriya Lok Samata Party” the existing entry may be read as “ Chhat ka Pankha”.
2. At page 69 against Sl. No. 1287 of the **Hindi version of the Notification**, the existing entries under column 2 and 3 shall be read as “ Rashtriya Jagriti Party” and “ Rishabh Institute, Chiraitaad Pul, Chaudhary Petrol Pump, Kankarbagh, Patna, Patna, Bihar-800020” respectively.

By order,  
Sd/-  
VARINDER KUMAR,  
Secretary,  
Election Commission of India.

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 16/B.E./T/Misc./2015

तारीख : 19-2-2015

अगली तारीख पेशी : 18-3-2015

श्री संजीव शर्मा

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री सुभाष शर्मा, निवासी ठारकू, डा0 वारी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की पयोजा शर्मा का जन्म दिनांक 6-6-2008 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत चनसारी के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पयोजा शर्मा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-3-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रघुवीर सिंह शाशनी,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 15/B.E./T/Misc./2015

तारीख : 19-2-2015

अगली तारीख पेशी : 18-3-2015

श्री धीरज वर्मा

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री धीरज वर्मा पुत्र श्री गुरदयाल, निवासी H.No.12, वार्ड नं0 5 सरवरी बाजार कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 28-5-1985 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद् कुल्लू के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को धीरज वर्मा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-3-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रघुवीर सिंह शाशनी,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-----

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 11/M.E./T/Misc./2015

तारीख : 19-2-2015

अगली तारीख पेशी : 18-3-2015

श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री सुभाष शर्मा, निवासी ठारकू, डा0 वारी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)  
श्रीमती रंजू शर्मा पुत्री श्री मोहिन्दर लाल शर्मा, निवासी गांव व डा0 डोभी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 12-2-2015 को इस अदालत में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 21-9-2007 को हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार स्थान डोभी में शादी कर ली है और तब से पति—पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो

वह दिनांक 18-3-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 19-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रघुवीर सिंह शाशनी,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-----

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 17/B.E./T/Misc./2015

तारीख : 19-2-2015

अगली तारीख पेशी : 18-3-2015

श्री संजीव शर्मा

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री सुभाष शर्मा, निवासी ठारकू, डा0 वारी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसकी लड़की तेजल शर्मा का जन्म दिनांक 20-9-2012 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत चनसारी के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को तेजल शर्मा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-3-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

रघुवीर सिंह शाशनी,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,  
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-----

समक्ष सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

विषय.—दरखास्त मखफूद—उल—खबरी जेर धारा 5 नियम 20 निस्बत लापता होने बरु पुत्र मान चन्द, गांव बलाड, फाटी खाबल, कोटी फतेहपुर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

उपरोक्त विषय में श्री गुमत राम पुत्र दया राम, गांव बलाड, फाटी खाबल, कोटी फतेहपुर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू ने एक प्रार्थना—पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उसका सगा चाचा बरु पुत्र मान चन्द, गांव बलाड, फाटी खाबल, कोटी फतेहपुर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) पिछले अरसा 60 वर्षों से लापता है श्री रुप दास अविवाहित बिला औलाद है। अतः वाहिद उत्तराधिकारी भी है। लापता रुप दास का

ताहाल कोई भी पता नहीं लग रहा है। अतः इस इशतहार द्वारा उक्त लापता व्यक्ति व सर्वसाधारण/जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त रुप दास का इंतकाल वरासत बहक प्रार्थी दर्ज करने बारे अगर किसी को उजर एतराज हो तो दिनांक 16-3-2015 को ब मकाम पटवार वृत्त चेथर में असागतन या वकालतन पेश होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा इंतकाल नियमानुसार बहक उपरोक्त वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 13-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्रीमती बन्दना देवी पत्नी श्री सचिन, निवासी डीम, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)  
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

आवेदन पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बन्दना देवी पत्नी श्री सचिन, निवासी डीम, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें लिखा है कि उसके पुत्र कौशिक चौहान की जन्म तिथि 12-11-2009 है परन्तु अज्ञानता के कारण वह अपने पुत्र की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पराली के अभिलेख में समय पर नहीं करवा सकी तथा अब करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती बन्दना देवी के पुत्र कौशिक चौहान की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पराली के अभिलेख में दर्ज करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति का कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 26-3-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज नहीं सुना जाएगा तथा आवेदिका के पुत्र की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पराली के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 26-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री नरेश कुमार, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री लायक राम पुत्र श्री हीरा सिंह, निवासी दियांलडी, डाकघर नेरुवा, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

1. आम जनता,
2. प्रधान, ग्राम पंचायत नेरुवा, तहसील चौपाल प्रतिवादी।

विषय.—श्री लायक राम पुत्र श्री हीरा सिंह के बेटे का नाम पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म के पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वादी श्री लायक राम पुत्र श्री हीरा सिंह ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेटे का जन्म पंजीकरण रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि दर्ज नहीं करवाई है जिसे अब ग्राम पंचायत नेरुवा के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जो कि निम्न प्रकार से है :—

(1) सुशील पुत्र श्री लायक राम

जन्म तिथि 3-3-1991

इसलिए ग्राम पंचायत नेरुवा, तहसील चौपाल की जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 20-3-2015 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत नेरुवा को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 19-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नरेश कुमार,  
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),  
चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 5/2015

तारीख दायर : 25-2-2015

श्री पन्ना लाल पुत्र स्व0 श्री बेली राम, निवासी गांव कुरगू, डा0 शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

दरखास्त (नाम दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज खाता नं0 16, वाका चक रांवी व माल कागजात चक सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त श्री पन्ना लाल पुत्र स्व० श्री बेली राम, निवासी गांव कुरगू, डा० शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र पन्ना लाल सही व दुरुस्त है परन्तु प्रार्थी का नाम खाता नं० 16 वाका चक रांवी व माल कागजात वाका चक सराहन के खाना मालिक में शीशी राम व शीशी उर्फ पन्नी लाल दर्ज है जो सही नहीं है। वादी अपना नाम उपरोक्त माल कागजात में शीशी राम व शीशी राम उर्फ पन्नी लाल के स्थान पर पन्ना लाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम कागजात माल में शीशी राम व शीशी उर्फ पन्नी लाल के स्थान पर पन्ना लाल दुरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 25-3-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 25-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)

नं० मुकद्दमा : 6/2015

तारीख दायर : 25-2-2015

1. श्री शैलेश बिष्ट पुत्र श्री नरेन्द्र बिष्ट, निवासी मकान नं० 26, वार्ड नं० 3, कस्बा बाजार रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।
2. श्रीमती बबली पुत्री श्री नीमा दोर्जे, निवासी गांव अकपा, तहसील मुरंग, जिला किन्नौर (हि० प्र०)  
प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

नगरपालिका परिषद् के अभिलेख में शादी पंजीकरण बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री शैलेश बिष्ट पुत्र श्री नरेन्द्र बिष्ट, निवासी मकान नं० 26, वार्ड नं० 3, कस्बा बाजार रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका विवाह दिनांक 13-8-2014 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार श्रीमती बबली पुत्री श्री नीमा दोर्जे, निवासी गांव अकपा, तहसील मुरंग, जिला किन्नौर (हि० प्र०) के साथ सम्पन्न हुआ है, परन्तु नगरपालिका परिषद् रामपुर के अभिलेख में विवाह पंजीकरण नहीं हुआ है। अब नगर पालिका परिषद् अभिलेख रामपुर के विवाह रजिस्टर में विवाह पंजीकरण करवाना चाहता है।



अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त शैलेश बिष्ट व बबली के विवाह का पंजीकरण नगरपालिका परिषद् रामपुर के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 25-3-2015 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगरपालिका परिषद् अभिलेख में विवाह के पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 25-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 42/2015

श्री भरत राणा पुत्र श्री सूरत सिंह, निवासी होटल राणा लॉज, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भरत राणा पुत्र श्री सूरत सिंह, निवासी होटल राणा लॉज, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पास कार्यरत वेंटर वरिन्द्र कैन्थुरा की मृत्यु तिथि 9-11-2013 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगर पालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपनी ऊपर वर्णित वरिन्द्र कैन्थुरा की मृत्यु तिथि 9-11-2013 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वरिन्द्र कैन्थुरा पुत्र पंचम सिंह, निवासी जैलोद्वारा, थाना रामपुर, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड की मृत्यु तिथि नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 25-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त वरिन्द्र कैन्थुरा की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

प्रकरण संख्या : 43/2015

श्री विजय कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विजय कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 8—3—1990 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ—पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत बदरीपुर में अपनी जन्म तिथि 8—3—1990 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को विजय कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 25—3—2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त विजय कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21—2—2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

## HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 00 1

### NOTIFICATION

*Shimla, the 4<sup>th</sup> March, 2015*

**No. HHC/Rules/1461/90.**—Hon'ble the Chief Justice High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Article 229 of the Constitution of India and all other enabling powers in this behalf is pleased to make the following amendment in “**The Himachal Pradesh High Court Officers and the Members of Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct & Appeal) Rules 2003**”:

**1. Short title & Commencement.**—These Rules shall be called “**The Himachal Pradesh High Court Officers and the Members of Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct & Appeal) (27th Amendment 2015) Rules, 2003**”.

2. They shall come into force with immediate effect.

3. **Amendment.**—Item No. 1 in the Schedule “B”, Class-I (Gazetted) annexed to the Rules **The Himachal Pradesh High Court Officers and the Members of Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct & Appeal) Rules, 2003** shall be added as under, hence, the serial numbers of column one shall be renumbered as 1 (newly added), 2 to the existing (1), 3 to the existing 2 and so on, consequently the word Registrar (Administration) alongwith note appearing in **Schedule A**, against **Sl. No. 4** shall stand deleted:

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Mode of appointment	Qualification	Experience/ length in service in feeder cadre	Scale of pay (Revised)
1.	Registrar (Administration)	1	By selection from amongst the Additional Registrars on the basis of merit- <i>cum</i> -seniority.	Graduation	Two years	Rs. 15600-39100-8400/- Grade Pay Rs. 2500/- Secretariat Pay as sanctioned from time to time by the competent authority.

By order,  
*Hon'ble the chief justice*  
*Registrar general.*

